



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 माघ 1935 (श०)
(सं० पटना 168) पटना, सोमवार, 17 फरवरी 2014

वित्त विभाग

अधिसूचनाएं

17 फरवरी 2014

सं० को०प्र०/स्था०-35/2011-1609-1615वि०—बिहार लेखा सेवा की मूल कोटि के पे-बैंड रुपये 15600-39100, ग्रेड पे रुपये 5400/- के निम्नांकित पदाधिकारियों को वरीय लेखा पदाधिकारी/समकक्ष स्तर के पे-बैंड रुपये 15600-39100, ग्रेड पे रुपये 6600/- में प्रोन्नति देते हुए निम्नांकित रूप से पदस्थापित किया जाता है।

संचिका संख्या—को०प्र०/स्था०-35/2011-1609 वि० श्री चन्द्र प्रकाश, लेखा पदाधिकारी, वित्त विभाग को अगले आदेश तक अवर बजट नियंत्रक—सह—अवर सचिव, वित्त विभाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संचिका संख्या—को०प्र०/स्था०-35/2011-1610 वि० श्री कन्हैया लाल गोस्वामी, जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बेगुसराय को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, बेगुसराय के पद को वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्कृष्टित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। श्री गोस्वामी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, खगड़िया के भी प्रभार में रहेंगे।

संचिका संख्या—को०प्र०/स्था०-35/2011-1611 वि० श्री अजमत अली अंसारी, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सारण को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, सारण के पद को वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्कृष्टित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संचिका संख्या—को०प्र०/स्था०-35/2011-1612 वि० श्री श्यामाकांत मेहरा, सहायक कोषागार पदाधिकारी, भागलपुर को अगले आदेश तक जिला लेखा पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संचिका संख्या-को0प्र0/स्था0-35/2011-1613 वि0 श्री विजय कुमार सिंह, सहायक कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को अगले आदेश तक जिला लेखा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संचिका संख्या-को0प्र0/स्था0-35/2011-1614 वि0 श्री प्रेम पुष्प कुमार, सहायक कोषागार पदाधिकारी, पटना समाहरणालय, पटना को अगले आदेश तक जिला भविष्य निधि पदाधिकारी, गोपालगंज के पद को वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमित करते हुए उक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संचिका संख्या-को0प्र0/स्था0-35/2011-1615 वि0 श्री नरेन्द्र कुमार राम, सहायक कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को अगले आदेश तक कोषागार पदाधिकारी, नरकटियागंज के पद को वरीय लेखा पदाधिकारी के समकक्ष उत्क्रमित करते हुए वरीय कोषागार पदाधिकारी, नरकटियागंज के पद पर पदस्थापन किया जाता है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संजीव हंस,
सचिव व्यय ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 168-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>